



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

सांख्यिकार प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

Published by Authority

आश्विन 4, गुरुवार, शा के 1941–सितम्बर 26, 2019

Asvina 4, Thursday, Saka 1941–September 26, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur September 04, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8695 ..In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Khandela has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Khandela. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,
Ujjwal Rathore,
Joint Secretary to Governement.**

कार्यालय नगरपालिका मण्डल खण्डेला (सीकर) राज
प्रपत्र- क

क्रम संख्या	वार्ड संख्या	सीमांकन का विवरण
1	1	बिज्यावाली कुंआ से चारोड़ा धाम बस्ती को लेकर दक्षिण की ओर लादूराम के मकान के पिछे से चलते हुये लक्ष्मण बलाई के मकान तक यहां से पूर्व की ओर रामसिंह के मकान को शामिल कर उत्तर की ओर सडक-सडक चलकर छोटु माली के मकान को बायां लेकर उत्तर की ओर सडक-सडक चलकर समस्त बांयी ओर की आबादी को शामिल करते हुये बिज्यावाला कुंआ तक दुर्गा भवन सांवर चेजारा से दक्षिण की ओर नदी-नदी चलकर पोद्वार की बावड़ी तक यहां से बावड़ी को दायां छोड़ते हुये उत्तर की ओर नृसिंह मंदिर लेकर वाया ब्रहामण समाज के सामने से पश्चिम की ओर सडक सडक चलकर ओम महर्षि के नोहरे को शामिल कर समस्त बांयी ओर आबादी को शामिल कर दुर्गा भवन सांवर चेजारा के मकान तक।
2	2	ओमजी माली के मकान से उत्तर पश्चिम में चामुण्डा माता सडक सडक चलकर दक्षिण में रास्ते रास्ते ग्यारसी लाल माली के मकान तक, यहां से दक्षिण में औंकार माली के मकान को व रसीद पुत्र मसरफ खां के मकान को शामिल कर

		सजाउं खां वकील के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर रफीक पुत्र अब्दुल गन्नी को बायां लेकर पूर्व की ओर इकरामूदीन पुत्र सरफुदीन को बायां लेते हुये हनीफ पहलवान के मकान तक, यहां से उत्तर में अब्दुल मुनान के मकान व कमरुदीन के मकान को तथा मिश्रा वाला कुंआ को शामिल करते हुये तकिया को दाहिना छोड़ते हुये रामेश्वर नायक के मकान तक, यहां से सड़क सड़क नायकान चौक होते हुये सुरजा बलाई व रामसिंह के मकान को शामिल कर सड़क सड़क औमजी माली के मकान तक।
3	3	अनु खां के मकान से दक्षिण की ओर चलकर मंजूर अली के मकान को शामिल कर सनाउल्ला के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर चलकर मो वकील के मकान को शामिल करते हुये अब्दुल बारीक के मकान को शामिल कर उत्तर में रास्ते रास्ते चलकर इब्राहिम के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर चलकर तकिया तक यहां से पश्चिम की ओर रास्ते रास्ते चलकर हाजी जंहागीर के नोहरे के शामिल कर दक्षिण पश्चिम में चलकर अब्दुल गन्नी के मकान को दायां छोड़कर उत्तर की समस्त आबादी को शामिल करते हुये अन्नु खां के मकान तक।
4	4	बाबूलाल माली के मकान (स्कूल न. 04) से उत्तर की ओर रास्ते रास्ते चलकर रामेश्वर माली को शामिल करते हुये पहाड़ तक, यहां से दक्षिण की ओर की बस्ती को शामिल करते हुये राजू माली महावीर माली के शामिल करते हुये ईदगाह तक, यहां से पूर्वी तरफ बरसात अली के मकान को बायां लेकर हारून के मकान के दायां छोड़कर दक्षिण की ओर बबरी(इस्लामूदीन) के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर सड़क सड़क हारून ड्राईवर के मकान तक, यहां से उत्तर में आत्मा राम के मकान तक, यहां से पश्चिम में रामनारायण माली व औमप्रकाष माली के मकान को शामिल करते हुये बाबूलाल माली के मकान तक।
5	5	पानी की टंकी के पास याकुब के मकान से दक्षिण की ओर ईदगाह तक, यहां से अफजल आमीन के मकान को शामिल कर रास्ते रास्ते चलकर इब्राहिम भोलू के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर चलकर अब्दुल रहमान के मकान तक, यहां से जमील चायवाला के मकान को बायां लेते हुये उत्तर में चलकर अहसान अली के मकान तक, यहां से उत्तर पूर्व में हारून के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर चलकर कब्रिस्तान को शामिल करते हुये पहाड़ तक, यहां से दक्षिण की ओर चलकर बायी ओर की आबादी को शामिल करते हुये पानी की टंकी के पास याकुब के मकान तक।
6	6	पुरोहितजी के कुये से पश्चिम की ओर चलकर नईमुदीन पुत्र अलीमुदीन के मकान तक, यहां से दक्षिण में रास्ते रास्ते चलकर युसुफ खाती (मोजीन सेहरा मजिस्ट्रेट) के मकान को दायां छोड़ते हुये बायी ओर अब्दुल अजीज (राजा हिन्दुस्तानी) के मकान को शामिल करते हुये पूर्व की ओर जमील चाय वाले के मकान तक, यहां से पूर्व में खुर्शीद के मकान तक, यहां से दक्षिण में गुलाम मोहम्मद के मकान तक, यहां से पूर्व में अब्दुल हर्ई लोडीश के मकान तक, यहां से उत्तर में सेफुरहमान पुत्र मुजमिल के मकान को बायां छोड़ते हुये पूर्व में बाबू

		गुहालिया के मकान तक, यहां से उत्तर में उमरदीन पुत्र अब्दुल गफार गुहालियां के मकान तक, यहां से पूर्व में अब्दुल हक के मकान तक यहां से पुरोहितजी के कुये तक।
7	7	बाबू बिसायती के मकान से मुन्सी गुहालिया के नोहरे को शामिल करते हुये उत्तर की ओर चलकर अब्दुल माजीद के नोहरे तक, यहां से रास्ते रास्ते पश्चिम दक्षिण चलकर हाफिज इकबाल के मकान को एवं अब्दुल हमीद के मकान को बायां लेते हुये खलील पुत्र अब्दुल मजीद पठान (सुरैया) के मकान तक, यहां से दक्षिण की ओर चलकर अयूब पुत्र उमरदीन टेलर को बायां लेते हुये पश्चिम में फिरोजूदीन के मकान को शामिल करते हुये सकूर चक्की वाले के मकान तक, यहां से मोहम्मद यूनुस मास्टर के मकान को बायां लेकर पश्चिम में रास्ते रास्ते चलकर ईदगाह के पास आरीफ चैमू वाले मकान तक, यहां से दक्षिण में इकराम पुत्र फारुक तक यहां से शमसान को दायां छोड़ते हुये मोहम्मद रफीक व जफर आलम के मकान को शामिल करते हुये नला-नला चलकर मदन खटीक तक, यहां से बाबू बिसायती के मकान तक।
8	8	मूलचन्द खटीक के मकान से अब्दुल खालीक (अण्डे वाला) के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर चलकर मो ईकबाल के मकान को शामिल करते हुये खटीकान शमसान व नाथ आश्रम को शामिल कर पहाड़ तक, यहां से दक्षिण की ओर पहाड़-पहाड़ चलकर घटेश्वर शिव मंदिर को बायां लेते हुये पलसाना रोड तक, यहां से उत्तर की ओर रास्ते रास्ते चलकर बायी ओर की समस्त आबादी को शामिल कर लादूराम खटीक के मकान व शिव मंदिर को शामिल कर मूलचन्द खटीक तक।
9	9	सिनेमा हाल के दक्षिण पश्चिम चलकर कीरो के मंदिर को शामिल करते हुये भूदा का बास बडगटटा को पश्चिम में छोड़ते हुये चोथू माली के मकान व फकीरो का चोक को शामिल करते हुये सडक-सडक अब्दुल हनान बिसायती के मकान तक, यहां से पश्चिम में सडक सडक मेवाराम पुत्र भंवर लाल सैनी के मकान तक, यहां से खटीकान चोराहा से होते हुये दक्षिण की ओर चलकर नागा बाबा की छतरी तक, यहां से सूरतचंद महाराज की छतरी व कुआ को शामिल करते हुये पूर्व में पलसाना सडक-सडक अब्दुल गनी के मकान तक, यहां से उत्तर में सडक-सडक चलकर नगर पालिका कार्यालय को शामिल करते हुये उत्तर में सहकारी बैंक, व पुलिस चोकी को बायां लेते हुये सिनेमा हाल तक।

10	10	चिंजी लाल मोटी की दुकान से पश्चिम में चोपाटी वाले रास्ते-रास्ते चलकर यासीन कुरैशी (कसाई) के मकान तक, यहां से दक्षिण की ओर चलकर हाफीज खरादी तक, यहां से पश्चिम की तरफ चलकर सम्पूर्ण हरिजन बस्ती को शामिल करते हुये दक्षिण में स्कूल न 07 तक, यहां से दक्षिण की ओर चलकर हाफीज मोहम्मद आफान के मकान को बायां लेते हुये रास्ते रास्ते भूदा का बास बडगटटा को बायां लेते हुये पूर्वी तरफ बनवारी लाल अग्रवाल रोयल वाले के मकान को शामिल करते हुये रास्ते रास्ते कीरो के मंदिर को दायां छोड़ते हुये नजीर कुरैशी(कसाई) को शामिल कर पूर्व उत्तर की तरफ मालीराम रोयल वाले की दुकान को शामिल करते हुये रास्ते रास्ते उत्तर में चलकर चिंजी लाल मोटी की दुकान तक।
11	11	रमजान पुत्र सल्लाउदीन के मकान(पुरोहित जी के कुये के पास) से दक्षिण में चलकर अब्दुल हई पुत्र अब्दुल गफार के मकान को बायां लेते हुये रास्ते रास्ते अब्दुल माबूद के मकान तक, यहां से पूर्वी तरफ सबीर कपडे वाले के मकान को बायां लेते हुये रास्ते रास्ते खटीकान चोक होते हुये पूर्व की तरफ रिछपाल खाती के मकान तक, यहां से अब्दुल हनान के मकान को दायां छोड़ते हुये रास्ते रास्ते दक्षिण पूर्व की ओर चलकर भूदा का बास कुआ तक, यहां से उत्तर की ओर रास्ते रास्ते चलकर स्कूल न 07 को दायां छोड़ते हुये पश्चिम की तरफ चलकर रिजवान पुत्र अब्दुला के मकान तक, यहां से उत्तर में रास्ते रास्ते चलकर सिरस वाली मजिस्ट्रेट को बायां लेते हुये पूर्वी उत्तरी तरफ खलील बिसायती(पूर्व पार्षद) के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर रास्ते रास्ते चलकर चोपाटी होते हुये रमाजन पुत्र सल्लाउदीन के मकान तक।
12	12	नत्थु हाजी की हवेली (चैपाटी पर) से पूर्व की ओर सड़क सड़क चलकर अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल गन्नी के मकान तक, यहां से उत्तर में नई गुवाड़ी बोदु बिसायती के मकान को शामिल करते हुये रास्ते रास्ते मिजाज अली के मकान तक, यहां से पूर्वी ओर चलकर दरगाह फतेहशाह चोक तक, यहां से उत्तर की ओर गली गली चलकर कुआ खटीकान तक, यहां से पश्चिम ओर रास्ते रास्ते चलकर दुर्गा नायक के मकान तक, यहां से दक्षिण की ओर चलकर माला पुत्र मांगूराम के मकान को शामिल करते हुये मौले खां के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर चलकर रास्ते रास्ते निर्वाणों की मस्जिद को शामिल करते हुये करीम खां निर्वाण के मकान को शामिल करते हुये दक्षिणी ओर अब्दुल माजीद पुत्र अब्दुलला (कश्मीरी) के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर चलकर अमरचन्द पंसारी के दूकान को शामिल कर चोपाटी पर नत्थु हाजी की हवेली तक।
13	13	मनियारो की मस्जिद से पश्चिम की ओर चलकर जबाबअली के मकान तक, यहां से दक्षिण की ओर चलते हुये नई गुवाड़ी को दायां छोड़ते हुये सेफुरहमान के मकान को शामिल करते हुये अब्दुल मुकीम पुत्र अब्दुल हकीम के मकान तक, यहां से नली चोक में नानू अब्दुल गफार के मकान को बायां लेते हुये दक्षिणी तरफ अब्दुल सलाम के मकान तक, यहां से दक्षिणी तरफ रास्ते रास्ते चलकर

		इटरीस के मकान तक, वहा से पूर्व की ओर चलकर अब्दुल हकीम के मकान तक, यहां से हरिजन बस्ती को छोड़ते हुये पूर्वी उत्तरी तरफ टेकडे पर मीना खेराती के मकान तक, यहां से हाफीज खरादी के मकान को दाहिना छोड़ते हुये उत्तर की ओर चलकर अल्लादीन बिसायती तक, यहां से उत्तर की ओर रहिम अहमद के मकान को बायां लेते हुये रास्ते रास्ते मरकज पंचायती तिबारी तक, यहां से पश्चिम की ओर चलकर मनियारो की मस्जिद तक
14	14	काजी का खुरा पर नूरदीन कसाई पुत्र मंगतूदीन व्यापारी से दक्षिण में मनियारो की मस्जिद को दायां छोड़कर अब्दुल करीम खरादी व अब्दुल सत्तार हाट वाला के मकान को शामिल करते हुये मरकज पंचायती तिबारी को दायां छोड़ते हुये व मस्जिद मरकज कुये को बायां लेते हुये अहमद अली खरादी (वैध) का मकान को शामिल करते हुये सलीम खरादी नीमकाथाना वाले के मकान तक, यहां से चोपाटी रास्ते रास्ते पूर्व की ओर अलादीन तेली ,नूरजी तेली को शामिल करते हुये रथुनाथ पुत्र पोखर मल मुनका की दुकान तक, यहां से उत्तर में चोपड वाले रास्ते रास्ते सल्लाउदीन लुहार के मकान व चतर्भुज मुनका को शामिल करते हुये नारनोलिया बाजार होते हुये चोपड बाजार में चतर्भुज मुनका की दुकान तक, यहां से पश्चिम में नदी-नदी काजी का खुरा पर नूरदीन कसाई पुत्र मंगतूदीन व्यापारी के मकान तक।
15	15	मण्डी दरवाजा मोदी शोरूम से दक्षिण की ओर सड़क सड़क चलकर सिनेमा हाँल व पुलिस चैकी तथा नगरपालिका को दायां छोड़ते हुये मदनमोहन कलावटीयां के मकान तक, यहां से शशि शिवालय मंदिर को शामिल करते हुये घुमचक्कर पर फकरुदीन की दुकान तक, यहां से उत्तर की ओर चलकर मंगल माली तक गणपति काम्पलेक्स को दायां छोड़कर यहां से उत्तर पश्चिम की ओर चलकर छितर पंसारी के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर चलकर कुन्दन खण्डेलवाल के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर मण्डी दरवाजा मोदी शोरूम तक।
16	16	उदयपुरवाटी रोड पर ईदगाह से दक्षिण में बस स्टेण्ड होते हुये नेहरू पार्क को शामिल कर कुआ गुसाई को लेते हुये बाईपास बरसिंहपुरा चैराहा पर सरस डेयरी दुकान तक, यहां से पूर्व में बाईपास सड़क-सड़क चलकर कांवट रोड पर बाईपास तिराहा तक, यहां से पश्चिम में सड़क सड़क चलकर शंकर लाल माली के बाग को शामिल करते हुये कलावटियां मैरिज गार्डन को दायां छोड़ते हुये उत्तर में उदलगढ़ को शामिल करते हुये रमेश पंसारी के मकान तक, यहां से शनि मंदिर को दायां छोड़ते हुये उदयपुरवाटी रोड पर श्यामजी गुरारा वाले की दुकान तक, यहां से पश्चिम की ओर घासी राम बलाई व नानग राम पीपराली वाले के मकान को बायां लेते हुये सड़क-सड़क पश्चिम में राधेश्याम खण्डेलवाल के मकान तक, यहां से दक्षिण पूर्व में छितरमल पंसारी के मकान को दायां छोड़ते हुये रास्ते रास्ते विष्णु मोदी व पन्ना बलाई के मकान को शामिल करते हुये दक्षिण में गणपति काम्पलेक्स को बायां लेते हुये उदयपुरवाटी रोड पर ईदगाह तक।
17	17	उदयपुरवाटी रोड पर रा.प्रा.वि. से दक्षिण में शानि मंदिर को शामिल करते हुये

		रमेश पंसारी के मकान को दायां छोड़ते हुये सीधा दक्षिण में उदलगढ़ को दायां छोड़ते हुये सेन्ट्रल स्कूल व कलवाटियां मैरिज गार्डन को शामिल करते हुये शंकर माली के बाग को दायां छोड़ते हुये कांवट रोड तक, यहां से पूर्व की ओर सड़क सड़क बालाजी मंदिर को शामिल कर मदन चेजारा के मकान तक, यहां से रास्ते रास्ते चलकर किशन नायक को शामिल कर काशीनाथ के मकान तक, यहां से मूलचंद दुर्गप्रसाद के मकान को शामिल कर मस्तानी कब्र तक, यहां से बावड़ी मुनका व गुरुद्वारा को शामिल करते हुये उदयपुरवाटी रोड पर रा.प्रा.वि तक।
18	18	हैदरया कुंआ से कायमखानी धर्मशाला को दायां छोड़कर पश्चिम की ओर बुन्दु कुरैशी के मकान तक, यहां से असगर कलाल के मकान तक, यहां से मूसा कुम्हार के मकान को बायां लेकर पश्चिम में चलकर सोहन पुत्र भूरामल चौधरी की दुकान तक, यहां से दक्षिण में नारनोलियां बाजार होते हुये हकीम बिसायती की दुकान तक, यहां से कुशाल चंद जैन की दुकान को शामिल करते हुये मण्डी दरवाजा, रामावतार, बरसिंहपुरा वाले की दुकान तक, यहां से पूर्व की ओर चलकर पुरुषोत्तम खण्डेलवाल को शामिल कर छितर पंसारी की दुकान तक, यहां से पूर्व में रास्ते रास्ते उदयपुरवाटी सड़क तक यहां से सड़क सड़क उत्तर में धर्मदास के कुये तक यहा से पश्चिम में रैगरान कुआ को दायां छोड़कर रैगरो के चोक होते हुये हैदरया कुंआ तक।
19	19	माली राम पुजारी के मकान से भोमाणी माजी (सुरजमल) की हवेली को दायां छोड़ते हुये दक्षिण की तरफ कसाई चैक होते हुये सिलावटीयों की कुई तक, वहा से कुंआ खटीकान मदन खटीक को दायां छोड़ते हुये दरगाह फतेहशाह मदरसा चैक तक, मोहम्मद हनीफ पुत्र हाजी अमीरुदीन के मकान तक, यहां से उत्तर पूर्व की ओर मणियारो की मस्जिद को दायां छोड़ते हुये काजी जी की दुकान को शामिल कर काजी का खुर्रा होते हुये नूरदीन पुत्र मंगतूदीन कसाई के मकान तक यहां से नदी नदी पूर्व में लक्मीनारायण मन्दिर को शामिल करते हुये शिवपोल को बायां लेकर पूर्व की ओर कालूराम फूकणीका की दूकान तक, यहां से उत्तर की ओर दर्जियों की गली होते हुये रामपाल मूनका (जमन माली) के मकान तक, यहां से पश्चिम में सड़क सड़क होते हुये कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय रावत अतिथि भवन को बायां लेते हुये माली राम पुजारी के मकान तक।
20	20	मातादीन चौधरी से दक्षिण में दर्जियों की गली गली होते हुये कालूराम फूकणीका की दुकान को दाहिना छोड़ते हुये पश्चिम की ओर चौपड़ में यासीन खां की दुकान तक, यहां से पूर्व की ओर नदी नदी असगर कलाल के मकान तक, यहां से उत्तर में फत्तू कसाई के मकान को बायां लेते हुये पूर्व उत्तर की ओर कायमखानी धर्मशाला तक, यहां से उत्तर की ओर ओमजी बोहरा के नोहरे तक, यहां से पश्चिम की ओर अग्रवाल धर्मशाला को बायां व आमीन खोखर को दायां छोड़ते हुये तोपचीवाडा जाने वाले रास्ते रास्ते सिराज खोखर को बायां लेते हुये सदीक पुत्र अबदू खां के मकान तक, यहां से नला नला पुरोहितजी की बगीची तक, यहां से दक्षिण में मोबाईल टावर को शामिल करते हुये बुन्दू खां के

		मकान के सामने से धोबियों की गली होते हुये जमील खां, हरिप्रसाद पुरोहित (राजश्री स्कूल) का बायां लेकर प्रतापरोड़ पर मातादीन चौधरी के मकान तक।
21	21	अन्तु पुत्र सीतारम दिवान के मकान से दक्षिण की ओर रास्ता रास्ता चलकर ईदू/नाथू तेली के मकान को शामिल कर आमीन पुत्र यासीन खोखर की दुकान तक, यहां से पूर्व की तरफ सड़क चलकर ओमजी बोहरा के नोहरे का बायां छोड़ते हुये हैदरया कुंआ तक, यहां से रेगरान कुंआ को बायां छोड़ते हुये बनवारी लाल रैगर के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर नदी नदी सीनियर स्कूल व खेल मैदान का बायां लेते हुये उदयपुरवाटी सड़क सड़क उत्तर में मामराज स्कूल को शामिल करते हुये विश्रामग्रह तक, यहां से बालिका सीनियर स्कूल को बायां छोड़ते हुये रोशन लाल के मकान को शामिल कर राधेश्याम नारनोली के मकान तक, यहां से उत्तर की ओर मोहन मूनका को दाहिना छोड़ते हुये रामपाल मूनका को बायां लेकर पवन पलसानियां के मकान तक, यहां से पश्चिम में हरचन्द्र पलसानियां, तिवाड़ी जनोपयोगी भवन, अग्रसेन अतिथि भवन को शामिल करते हुये अन्तु पुत्र सीतारम दिवान के मकान तक।
22	22	कुंआ आचारी के पास सांवरमल आचारी के मकान से दक्षिण की ओर रास्ता रास्ता याकुब मलकान के मकान को बायां छोड़ते हुये समन्दर खां के मकान तक, यहां से पश्चिम में लाल खां के मकान को शामिल कर स्कूल नं. 5 तक, यहां से पूर्व की ओर सूवालाल नाई का बायां लेकर गोपाल नाई को बायां लेते हुए लालूजी की फैकट्री तक, यहां से लोहड़ी दादी के मकान को बायां लेते हुये दक्षिण की ओर पवन जी चेयरमेन के मकान को शामिल करते हुये मोहन मूनका के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर रास्ता रास्ता रामदेव पुत्र भीवाराम बलाई के मकान को शामिल कर बालिका सीनियर स्कूल तक, यहां से उत्तर में रामप्रसाद पारीक की चक्की चुंगी नाका नं. 2 तक, यहां से पश्चिम में नला नला भीवाराम माली के मकान को शामिल कर सांवरमल आचारी के मकान तक।
23	23	शिवदयाल की फैकट्री से दक्षिण की तरफ गोपी व मोती दारोगा के बायां लेकर पुरोहितजी की बगीची को दाहिना छोड़ते हुये नला नला सन्नू खां के मकान को शामिल कर सदीक लखपती के मकान को बायां लेकर बून्दू मोयल के मकान तक, यहां से उत्तर में तोपचीवाड़ा चैक में मस्जिद व मदरसा को बायां छोड़ते हुये रमजान खां के मकान तक, यहां से कालू खां/मोले खां के मकान को बायां लेते हुये पूर्व की तरफ लाल खां के मकान को दायां छोड़ते हुये कालू खां के मकान तक यहां से याकुब मलकान के मकान को शामिल करते हुये उत्तर की ओर आचारीयों के कुआ तक, यहां से पश्चिम में मूरारी लाल आचारी के मकान को शामिल कर पहाड़ पहाड़ शिवदयाल की फैकट्री तक।
24	24	हरिजी लाडखानी के मकान से दक्षिण में सीतारम तिवाड़ी, गोरीशंकर मन्दिर व बड़ा पाना गढ़ को बायां लेकर रास्ता रास्ता काला दरवाजा तक, यहां से पप्पू पंसारी के मकान से पूर्व की ओर रास्ता रास्ता बालाजी मन्दिर को बायां लेकर

		भंवर लाल धोबी के मकान तक, यहां से धोबियों की गली में से होते हुये उत्तर की ओर पुरोहितजी के कुए के पास बून्दू खां के मकान तक, यहां से पुरोहितजी की बगीची का शामिल कर घनश्याम चौधरी को बायां लेते हुये शिव की फैकट्री के सामने शंकर दरोगा तक, यहां से श्रवण दरोगा के मकान को शामिल करते हुये पहाड़ पहाड़ पश्चिम की तरफ हरिजी लाडखानी के मकान तक।
25	25	खण्डेश्वर महादेव मन्दिर से दक्षिण की तरफ रास्ता रास्ता बिंजावाला कुंआ के दाहिना छोड़ते हुये सीताराम गुर्जर के मकान तक, यहां से पूर्व की ओर दुर्गा भवन(सांवर मल चेजारा) के मकान को दायां छोड़ते हुये रास्ता रास्ता लिखड़ों की हथाई बालाजी मन्दिर को शामिल करते हुये पोस्ट आफिस के दाहिना छोड़ते हुये काला दरवाजा तक, यहां से इब्राहिम माहवत को बायां लेकर उत्तर की ओर इन्दिरा स्कूल ,उदयनारायण जी की हवेली तथा संजय कुमार, भगवान सहाय पुरोहित का शामिल करते हुये भंवर,सुरेश तिवाड़ी के मकान तक, यहां से पश्चिम की ओर पहाड़ -पहाड़ नृसिंहजी मन्दिर को शामिल करते हुये खण्डेश्वर महादेव मन्दिर तक।

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका खण्डेला

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।